

CLASS : 10th (Secondary)

Code No. 1903

Series : Sec. M/2017

Roll No. 

--	--	--	--	--	--	--	--

SET : A

गणित

MATHEMATICS

(Academic/Open)

[ हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम ]

[ Hindi and English Medium ]

(Only for Fresh Candidates)

(Morning Session)

समय : 3 घण्टे ]

Time allowed : 3 hours ]

[ पूर्णांक : 80 ]

[ Maximum Marks : 80 ]

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में सुनिश्चित प्रश्न 32 हैं।

Please make sure that the printed this question paper are it contains 32 questions.

- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिये गये कोड नम्बर तथा सेट को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखें।

The **Code No.** and **Set** on the right side of the question paper should be written by the candidate on the front page of the answer-book.

- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।

Before beginning to answer a question, its Serial Number must be written.

- उत्तर-पुस्तिका के बीच में खाली पन्ना/पन्ने न छोड़ें।

Don't leave blank page/pages in your answer-book.

- उत्तर-पुस्तिका के अतिरिक्त कोई अन्य शीट नहीं मिलेगी। अतः आवश्यकतानुसार ही लिखें और लिखा उत्तर न करें।

Except answer-book, no extra sheet will be given. Write to the point and do not strike the written answer.

- परीक्षार्थी अपना रोल नं० प्रश्न-पत्र पर अवश्य लिखें।

( 2 )

1903/(Set : A)

Candidates must write their Roll Number on the question paper.

- कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पत्र पूर्ण व सही है, परीक्षा के उपरान्त इस सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

*Before answering the questions, ensure that you have been supplied the correct and complete question paper, no claim in this regard, will be entertained after examination.*

**सामान्य निर्देश :**

**General Instruction :**

- (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

**All questions are compulsory.**

- (ii) इस प्रश्न-पत्र में कुल 32 प्रश्न हैं जो कि चार खण्डों अ, ब, स और द में बाँटे गये हैं :

*This question paper consists of 32 questions in all which are divided into four Sections : A, B, C and D :*

**खण्ड अ :** इस खण्ड में 1 से 16 तक कुल 16 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।

**Section A :** There are 16 questions from 1 to 16, each of 1 mark.

**खण्ड ब :** इस खण्ड में 17 से 21 तक कुल 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है।

**Section B :** There are 5 questions from 17 to 21, each of 3 marks.

**खण्ड स :** इस खण्ड में 22 से 27 तक कुल 6 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है।

**Section C :** There are 6 questions from 22 to 27, each of 4 marks.

**खण्ड द :** इस खण्ड में 28 से 32 तक कुल 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है।

**Section D :** There are 5 questions from 28 to 32, each of 5 marks.

- (iii) खण्ड द में दो प्रश्नों में आन्तरिक विकल्प दिये गये हैं। उसमें से एक प्रश्न को चुनना है।

**Section D** contains two questions where internal choice have been provided. You have to choose one of them.

1903/(Set : A)

**SECTION – A**

1. यदि 306 और 657 का HCF 9 है, तो उसका LCM है : 1

- |          |           |
|----------|-----------|
| (A) 2482 | (B) 22338 |
| (C) 2754 | (D) 5913  |

If HCF of 306 and 657 is 9, then its LCM is :

- |          |           |
|----------|-----------|
| (A) 2482 | (B) 22338 |
| (C) 2754 | (D) 5913  |

2.  $6x^2 - 7x - 3$  के शून्यक हैं :

- |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| (A) $-\frac{1}{3}, \frac{3}{2}$ | (B) $-\frac{7}{3}, -\frac{3}{6}$ |
| (C) $\frac{7}{6}, -\frac{3}{6}$ | (D) इनमें से कोई नहीं            |

The zeros of  $6x^2 - 7x - 3$  are :

- |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| (A) $-\frac{1}{3}, \frac{3}{2}$ | (B) $-\frac{7}{3}, -\frac{3}{6}$ |
| (C) $\frac{7}{6}, -\frac{3}{6}$ | (D) None of these                |

3. समीकरणों  $a_1x + b_1y + c_1 = 0$  और  $a_2x + b_2y + c_2 = 0$  में  $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ , तो निम्नलिखित में कौन-सा सत्य है ? 1

- |                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| (A) अद्वितीय हल | (B) कोई हल नहीं       |
| (C) अपरिमित हल  | (D) इनमें से कोई नहीं |

If in equations  $a_1x + b_1y + c_1 = 0$  and  $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ ,  $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ , then which of the following is **true** ?

- (A) Unique solution      (B) No solution  
 (C) Infinite solutions    (D) None of these

4. A. P.  $\frac{1}{3}, \frac{5}{3}, \frac{9}{3}, \frac{13}{3}, \dots\dots$  का 15वाँ पद है : 1

- (A)  $\frac{61}{3}$                          (B) 6  
 (C) 5                             (D) 19

15th term of A. P.  $\frac{1}{3}, \frac{5}{3}, \frac{9}{3}, \frac{13}{3}$  is :

- (A)  $\frac{61}{3}$                          (B) 6  
 (C) 5                             (D) 19

5. यदि A. P. का तीसरा पद 5 और 7वाँ पद 13 है, तो उसका सार्व अंतर (common difference) है : 1


- (A) 1                             (B) 2  
 (C) 3                             (D) 4

If 3rd term of an A. P. is 5 and 7th term is 13, then its common difference is :

- (A) 1                             (B) 2  
 (C) 3                             (D) 4

6. दी गई आकृति में  $\triangle ODC \sim \triangle OAB$ ,  $\angle BOC = 100^\circ$ ,  $\angle OAB$  का मान है : 1       $\angle ODC = 60^\circ$ , तो


1903/(Set : A)



- (A)  $20^\circ$       (B)  $80^\circ$   
(C)  $60^\circ$       (D)  $40^\circ$

In the given figure  $\Delta ODC \sim \Delta OAB$ ,  $\angle BOC = 100^\circ$ , then  $\angle OAB$  is equal to :

$$\angle ODC = 60^\circ,$$



- (A)  $20^\circ$       (B)  $80^\circ$   
(C)  $60^\circ$       (D)  $40^\circ$

7. यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात  $2 : 3$  है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है :

- (A)  $\sqrt{2} : \sqrt{3}$       (B)  $2 : 3$   
(C)  $4 : 9$       (D) इनमें से कोई नहीं

If ratio of the sides of two similar triangles is  $2 : 3$ , then the ratio of their areas is :

- (A)  $\sqrt{2} : \sqrt{3}$       (B)  $2 : 3$   
(C)  $4 : 9$       (D) None of these

8. यदि किसी बिन्दु P से वृत्त के ऊपर खींची गई, स्पर्श रेखा की लम्बाई 24 सेमी है और बिन्दु की केन्द्र से दूरी 25 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या की लम्बाई है :

- (A) 12 सेमी      (B) 12.5 सेमी  
(C) 1 सेमी      (D) 7 सेमी

1903/(Set : A)

P. T. O.

( 6 )

**1903/(Set : A)**

From a point P, the length of tangent to a circle is 24 cm and distance of P from the centre is 25 cm. The radius of the circle is :

- |           |             |
|-----------|-------------|
| (A) 12 cm | (B) 12.5 cm |
| (C) 1 cm  | (D) 7 cm    |

**9.** एक वृत्त पर समांतर रप्त रेखाओं की अधिकतम संख्या है : 1

- |       |       |
|-------|-------|
| (A) 1 | (B) 2 |
| (C) 3 | (D) 4 |

The maximum number of parallel tangents to a circle is :

- |       |       |
|-------|-------|
| (A) 1 | (B) 2 |
| (C) 3 | (D) 4 |

**10.** मूल बिन्दु से  $(5, -7)$  की दूरी है : 1

- |                 |        |
|-----------------|--------|
| (A) $\sqrt{74}$ | (B) -2 |
| (C) 2           | (D) 12 |

The distance of point  $(5, -7)$  from origin is :

- |                 |        |
|-----------------|--------|
| (A) $\sqrt{74}$ | (B) -2 |
| (C) 2           | (D) 12 |

**11.** त्रिभुज जिसके शीर्ष  $(1, -1)$ ,  $(-4, 6)$  और  $(-3, -5)$  है, उसका क्षेत्रफल है : 1

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| (A) $\frac{43}{2}$ | (B) 8                 |
| (C) 24             | (D) इनमें से कोई नहीं |

The area of triangle whose vertices are  $(1, -1)$ ,  $(-4, 6)$  and  $(-3, -5)$  is :

- |                    |       |
|--------------------|-------|
| (A) $\frac{43}{2}$ | (B) 8 |
|--------------------|-------|

**1903/(Set : A)**

( 7 )  
(D) None of these

(C) 24

12. यदि  $\tan A = \frac{5}{12}$ , तो  $\cos A$  का मान है :(A)  $\frac{5}{13}$ (B)  $\frac{12}{5}$ (C)  $\frac{13}{5}$ (D)  $\frac{12}{13}$ If  $\tan A = \frac{5}{12}$ , then the value of  $\cos A$  is :(A)  $\frac{5}{13}$ (B)  $\frac{12}{5}$ (C)  $\frac{13}{5}$ (D)  $\frac{12}{13}$ 13.  $\frac{1 - \tan^2 30}{1 + \tan^2 30}$  का मान है :(A)  $\cos 60^\circ$ (B)  $\tan 60^\circ$ (C)  $\sin 60^\circ$ (D)  $\tan 30^\circ$ The value of  $\frac{1 - \tan^2 30}{1 + \tan^2 30}$  is :(A)  $\cos 60^\circ$ (B)  $\tan 60^\circ$ (C)  $\sin 60^\circ$ (D)  $\tan 30^\circ$ 

14. वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है :

(A)  $2\pi : 1$ (B)  $\pi : 1$ (C)  $1 : 1$ 

(D) इनमें से कोई नहीं

The ratio of circumference and diameter of a circle is :

(A)  $2\pi : 1$ (B)  $\pi : 1$ (C)  $1 : 1$ 

(D) None of these

( 8 )

1903/(Set : A)

15. एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेमी और ऊँचाई 6 सेमी है, तो उसका आयतन है  $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$

: 1

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| (A) 924 सेमी <sup>3</sup>  | (B) 308 सेमी <sup>3</sup> |
| (C) 1232 सेमी <sup>3</sup> | (D) इनमें से कोई नहीं     |

The radius of the base of a cone is 7 cm and the height is 6 cm. Its volume is  $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$  :

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| (A) 924 cm <sup>3</sup>  | (B) 308 cm <sup>3</sup> |
| (C) 1232 cm <sup>3</sup> | (D) None of these       |

16. यदि  $P(E) = 0.05$ , तो  $P(E$  नहीं) है :

1

- |          |                       |
|----------|-----------------------|
| (A) 0.05 | (B) 0.5               |
| (C) 0.95 | (D) इनमें से कोई नहीं |

If  $P(E) = 0.05$ , then the  $P(\text{not } E)$  is :

- |          |                   |
|----------|-------------------|
| (A) 0.05 | (B) 0.5           |
| (C) 0.95 | (D) None of these |

खण्ड - ब

### SECTION – B

17. सिद्ध कीजिए कि  $6 + \sqrt{2}$  एक अपरिमेय संख्या है।

3

Prove that  $6 + \sqrt{2}$  is an irrational number.

18. एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक  $-4$  और  $2$  हों।

3

1903/(Set : A)

( 9 )

1903/(Set : A)

Find a quadratic polynomial whose zeros are -4 and 2.

19. दो खंभे जिसकी ऊँचाइयाँ 7 मी और 12 मी है एक समतल भूमि पर खड़े हैं यदि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मी है, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 3

Two poles of heights 7 m and 12 m stand on a plane ground. If the distance between the feet of the poles be 12 m, then find the distance between their tops.

20. यदि  $\tan(A + B) = \sqrt{3}$  और  $\tan(A - B) = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ,  $0^\circ < A + B \leq 90^\circ$ ,  $A > B$ , तो  $A$  और  $B$  का मान ज्ञात कीजिए। 3

If  $\tan(A + B) = \sqrt{3}$  and  $\tan(A - B) = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ,  $0^\circ < A + B \leq 90^\circ$ ,  $A > B$ , then find the value of  $A$  and  $B$ .

21. 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड (sector) का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केन्द्र पर कोण  $45^\circ$  हो। ( $\pi = 3.14$ ) 3

Find the area of the sector of a circle with radius 4 cm and the angle at the centre is  $45^\circ$ . ( $\pi = 3.14$ )

**खण्ड - स**

### SECTION – C

22. निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए : 4

$$\frac{3x}{2} - \frac{5y}{3} = -2$$

$$\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = \frac{13}{6}$$

Solve the following equations :

1903/(Set : A)

P. T. O.

$$\begin{aligned} & (10) \\ \frac{3x}{2} - \frac{5y}{3} &= -2 \\ \frac{x}{3} + \frac{y}{2} &= \frac{13}{6} \end{aligned}$$

23. एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली एक भुजा दूसरी से 17 सेमी कम है। यदि कर्ण की लम्बाई 25 सेमी है, तो दोनों भुजाओं की लम्बाई ज्ञात कीजिए। 4

The side of a right angle triangle is 17 cm less than the other side. If length of hypoteneuse is 25 cm, find the length of sides.

24. एक A. P. के पहले 7 पदों का योग 49 और पहले 17 पदों का योग 289 है, तो उस A. P. के  $n$  पदों का योग ज्ञात कीजिए। 4

If the sum of first 7 terms of A. P. is 49 and sum of first 17 terms is 289, then find the sum of  $n$  terms of A. P.

25. किसी बाह्य बिन्दु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लम्बाइयाँ बराबर होती हैं, सिद्ध कीजिए। 4

Prove that the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal.

26. एक बॉक्स में 5 लाल, 8 सफेद और 4 हरी गेंदें हैं। एक गेंद बॉक्स में से बिना देखे निकाली जाती है। इस गेंद के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस गेंद के हरी न होने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 4

A box contains 5 red, 8 white and 4 green balls. A ball is drawn at random. Find the probability of getting a red ball. Also find the probability that the ball is not green.

( 11 )

1903/(Set : A)

27.  $(5, -6)$  और  $(-1, -4)$  को मिलाने वाली रेखा को y-अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है ? विभाजित करने वाले बिन्दु के निरेशांक भी ज्ञात कीजिए। 4

Find the ratio in which the line joining  $(5, -6)$  and  $(-1, -4)$  is divided by y-axis. Also find the coordinates of the point of intersection.

खण्ड - द

## SECTION – D

28. एक रेलगाड़ी एकसमान चाल से 360 किमी चलती है। यदि उसकी चाल 5 किमी/घण्टा अधिक हो, तो उसे इतनी दूर जाने में 1 घंटा कम लगता है ? गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। 5

A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km/hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train.

29. सिद्ध कीजिए :

5

$$\frac{1 + \sec A}{\sec A} = \frac{\sin^2 A}{1 - \cos A}$$

Prove that :

$$\frac{1 + \sec A}{\sec A} = \frac{\sin^2 A}{1 - \cos A}$$

अथवा

OR

( 12 )

**1903/(Set : A)**

40 मी अधिक लम्बी

एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में

हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण  $60^\circ$  से घटकर  $30^\circ$  हो जाता है। मीनार की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 m longer when the altitude (the angle of elevation) of sun changes from  $60^\circ$  to  $30^\circ$ . Find the height of tower.

- 30.** एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी दो भुजाएँ 6 सेमी और 5 सेमी हों और उनके बीच का कोण  $60^\circ$  हो, इस त्रिभुज के समरूप दूसरे त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएँ इस त्रिभुज की  $\frac{3}{4}$  हों। 5

Draw a triangle whose two sides are 6 cm and 5 cm and the angle between them is  $60^\circ$ , construct another triangle whose sides are  $\frac{3}{4}$  of the corresponding sides of first triangle.

- 31.** त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के रूप में ढाला जाता है। शंकु की ऊँचाई ज्ञात कीजिए। 5

A metallic sphere of radius 4.2 cm is melted and recast into a shape of cone of radius 6 cm. Find the height of the cone.

- 32.** नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए :
- 5

भार (किलोग्राम में)	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**1903/(Set : A)**

( 13 )

1903/(Set : A)

विद्यार्थियों की संख्या	2	3	8	6	6	3	2
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---

The distribution below gives the weight of 30 students of a class. Find the median weight of the students :

Weight (in Kg.)	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75
No. of Students	2	3	8	6	6	3	2

अथवा

OR

किसी मोहल्ले के 25 परिवारों का भोजन पर व्यय निम्नलिखित है। भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए :

खर्च (रुपये में)	100-150	150-200	200-250	250-300	300-350
परिवारों की संख्या	4	5	12	2	2

The table below shows daily expenditure on food of 25 households in a locality. Find the mean daily expenditure.

Expenditure (in Rs.)	100-150	150-200	200-250	250-300	300-350
No. of households	4	5	12	2	2

.....

1903/(Set : A)

P. T. O.